



## सीमा सुरक्षा बल

ब्लॉक नं.10, सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स  
लोधी रोड,  
नई दिल्ली-110003

संदर्भ संख्या - 18/2018

दिनांक 29 मई 2018

### प्रेस विज्ञप्ति

#### सीमा सुरक्षा बल का एवरेस्ट विजय के साथ स्वच्छ हिमालय अभियान

सीमा सुरक्षा बल, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती हमारी सीमाओं का रक्षक बल है, साहसिक अभियानों में भी अग्रणी रहा करता है।

2. इसके साहसिक अभियानों में पर्वतारोहण भी शामिल है। अपने पर्वतारोहण अभियान के तहत इस बल के सदस्यों ने माउंट एवरेस्ट, कंचनजंघा और ऐसी ही हिमालयी ऊँचाइयों को कई बार छूआ है।

3. हाल ही में, दिनांक 20 - 21 मई को, इस बल के 15 सदस्यीय दस्ते ने एवरेस्ट फतह किया जो कि इस बल का दूसरा सफल एवरेस्ट अभियान रहा। इसकी कमान सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट पद्मश्री लवराज सिंह धर्मशक्तु के हाथों में थी जो रिकॉर्ड सात बार एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय हैं।

4. यह अभियान इस मायने में खास रहा कि अभियान दल के सदस्यों ने मात्र एवरेस्ट फतह को ही अपना लक्ष्य नहीं चुना था, हिमालय को स्वच्छ करने में अपना योगदान देना भी उनकी मंजिल थी।

5. सीमा सुरक्षा बल अपने दोनों ही लक्ष्यों में सफलकाम रहे। एवरेस्ट को छूने के साथ ही इस दल ने वापसी यात्रा में अन्य पर्वतारोधी दलों द्वारा छोड़े गये सामान को साथ लाये और उनके उचित निस्तारण का बीड़ा भी उठाया।

6. सीमा सुरक्षा बल के इस पुनीत कार्य की सराहना करते हुए 27 मई 2018 को प्रसारित हुए कार्यक्रम 'मन की बात' में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा -

“एवरेस्ट पर चढाई करने वाले कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दिखाया कि उनके पास न केवल Skill है, बल्कि वे Sensitive भी हैं। अभी पिछले दिनों ‘स्वच्छ गंगा’ अभियान के तहत BSF के एक ग्रुप ने एवरेस्ट की चढाई की, पर पूरी टीम एवरेस्ट से ढेर सारा कूड़ा अपने साथ नीचे उतार कर लाई। यह कार्य प्रशंसनीय तो है ही साथ ही साथ यह स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।”

Follow us on

Facebook : @OfficialPageBSF  
 Twitter : @BSF\_India  
 Instagram : @bsf\_india  
 youtube : @BSF India

जन संपर्क अधिकारी

सीमा सुरक्षा बल

Also visit us in <http://www.bsf.nic.in/>

